

July 26, 2023

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza”, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Department of Corporate Services/Listing

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

SCRIP Code: 531761

NSE Symbol: APOLLOPIPE

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of Newspaper Cuttings of Financial Results

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper cuttings of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2023, as approved by the Board of Directors in their Meeting held on July 25, 2023, and published in Business Standard Newspaper (English & Hindi edition), Economic Times Newspaper (English edition) and Navbharat Times Newspaper (Hindi edition) on July 26, 2023.

Submitted for your kind information and necessary records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Apollo Pipes Limited

Ankit Sharma

Company Secretary

(ICSI M. No: A47854)

APOLLO PIPES LIMITED

Regd. Office : 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, India

Corporate Office : A-140, Sector 136, Noida (U.P.) - 201301

Manufacturing Unit : Dadri (U.P.), Sikandrabad (U.P.), Ahmedabad (Gujarat), Tumkur (Karnataka), Raipur (Chhattisgarh) India

Toll Free No.: 1800-121-3737

info@apollopipes.com | www.apollopipes.com | CIN : L65999DL1985PLC022723

TAMIL NADU INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BOARD
 3rd floor, CMDA Building Tower-II, "Thalamuthu-Natarajan Maaligar",
 No.1, Gandhi Irwin Road, Egmore, Chennai – 600 008
 Phone: 044-28594366/28550155/255/355/455; E-mail : soifra.findpt@tn.gov.in
 Website: www.tnibd.tn.gov.in

REQUEST FOR QUALIFICATION
Empanelment of Consultancy Firms for various Sectors/ Sub Sectors/ Functional Areas

- The Chief Executive Officer, Tamil Nadu Infrastructure Development Board invites proposal from Consultancy Firms for Empanelment across various Sectors/ Sub Sectors/ Functional Areas.
- Request for Qualification (RFQ) may be downloaded from the websites <https://ntenders.gov.in/nicgcp/app> and <https://tnibd.tn.gov.in/en/>. The tender fee (non-refundable) of Rs.20,000/- is to be paid through e-procurement portal.
- A virtual pre-proposal conference for the prospective applicants is scheduled on **08.08.2023 at 11:00 a.m.**
- Proposals complete in all respect must be submitted online through the e-procurement process as specified in the RFQ on or before **3.00 p.m on 05.09.2023.**
- All other details are available in the Request for Qualification (RFQ).

DIPR/ 856 /DISPLAY/2023 Chief Executive Officer, TNIDB

Rane RANE ENGINE VALVE LIMITED
 CIN: L74999TN1972PLC006127
 Regd. Office: "MAITHRI", 132, Cathedral Road, Chennai - 600 086. Visit us at: www.ranegroup.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023
 Rs.in Crores except per share data

S. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from operations	138.53	115.01	499.63
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional Items)	3.65	(3.43)	6.83
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax after Exceptional Items)	2.52	(4.48)	0.16
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after tax after Exceptional Items)	1.74	(3.11)	(0.06)
5.	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	1.81	(3.08)	0.20
6.	Equity Share Capital	7.23	6.72	7.06
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	97.80
8.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	(a) Basic :	2.47	(4.63)	(0.09)
	(b) Diluted :	2.47	(4.63)	(0.09)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website - www.ranegroup.com

Notes:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 25, 2023. The Statutory auditors have carried out limited review of these financial results.
- Exceptional items (net) represents the following:
 - Voluntary Retirement Expenditure of Rs.0.48 Crores for the year ended March 31, 2023.
 - Provision for Customer Quality Claims of Rs. 6.19 Crores for the year ended March 31, 2023 (Rs.1.99 Crores and Rs.1.05 Crores respectively for the quarters ended March 31, 2023 and June 30, 2022) and Rs.1.13 Crores for the quarter ended June 30, 2023, towards estimated product liability costs, in respect of certain valves supplied to an overseas customer pending finalisation. The company has initiated insurance claim in respect of the same, which is under process and would be recognised once there is virtual certainty of realization. The management is of the opinion that the provision carried as at June 30, 2023 is adequate to cover the estimated net liability.
- Of the 5,15,463 warrants allotted on preferential basis to Rane Holdings Limited in March 2022, 3,43,642 warrants were converted into equivalent equity shares of Rs.10 each fully paid up during the quarter ended March 31, 2023. The balance 1,71,821 warrants were also converted into equivalent equity shares of Rs.10 each fully paid up during the quarter ended June 30, 2023. The Company has raised an aggregate Rs.15 crores on conversion of the 5,15,463 warrants (Rs.3.75 crores on warrant subscription in March 2022, Rs.11.25 crores and Rs.3.75 crores as warrant exercise price in March 2023 and June 2023 respectively). Consequently, the issued and paid up capital of the Company stands increased to Rs.7.06 crores and Rs.7.23 crores as on March 31, 2023 and June 30, 2023 respectively.

Place : Chennai
Date : July 25, 2023

For Rane Engine Valve Limited
L.Ganesh, Chairman


TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED

Registered Office : 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013
 Corporate Identity Number: U65923MH2011PLC222430
 Website: www.tatacapital.com

Extract of Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(Rs. in lakh)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	June 30, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		(Unaudited)	(Audited)
1 Total Income from operations	31,042	21,297	1,02,553
2 Net profit/ (loss) for the period (before tax, exceptional items)	12,159	8,296	37,061
3 Net profit / (loss) for the period before tax, (after exceptional items)	12,159	8,296	37,061
4 Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)	9,111	6,251	27,852
5 Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	8,732	5,990	27,879
6 Paid-up equity share capital (Face value: Rs. 10 per share)	45,929	45,929	45,929
7 Reserves, excluding revaluation reserves	1,58,536	1,27,777	1,49,770
8 Securities Premium Account	45,903	45,903	45,903
9 Net worth	2,03,212	1,72,762	1,94,366
10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	9,56,458	7,48,831	9,19,745
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12 Debt Equity Ratio	4.71	4.33	4.73
13 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
- Basic *	1.98	1.36	6.06
- Diluted *	1.98	1.36	6.06
14 Capital Redemption Reserve	-	-	-
15 Debenture Redemption Reserve	-	-	-
16 Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17 Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

* (Not annualised for quarter ended June 30, 2023 and June 30, 2022)

Notes: -

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / annual financial results are available on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the website of the Company (<https://www.tatacapital.com/tcc/invester-relation/financials.html>).
- For the other items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the website of the Company (<https://www.tatacapital.com/tcc/invester-relation/financials.html>).

For Tata Cleantech Capital Limited

Sd/-

Manish Chourasia
 Managing Director
 (DIN : 03547985)

Place: Mumbai
Date: July 24, 2023

APOLLO PIPES LIMITED
 CIN: L65999DL1985PLC022723
 Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092
 Corp. Office: Plot No. A-140, Sector 136, Noida, U.P.- 201301
 Email: compliance@apollopipes.com, Website: www.apollopipes.com

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023
 (Figure ₹ in Lakhs except face value and EPS)

S. No.	PARTICULARS	Current Quarter ended	Corresponding	Previous
		30.06.2023	Quarter ended	Year ended
		Un-audited	30.06.2022	31.03.2023
		Un-audited	Un-audited	Audited
1	Total Income from Operations	26,033.33	21,889.19	91,452.34
2	EBIDTA	2,734.50	2,085.31	6,999.44
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,392.48	882.62	2,391.49
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,412.26	884.20	5,573.90
7	Equity Share Capital	3,932.82	3,932.82	3,932.82
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	41,788.84
9	Earning Per Share (face value of Rs. 10/- each, not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	3.54	2.24	6.08
	Diluted:	3.48	2.24	6.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com> and on the Company's website "www.apollopipes.com".
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Sameer Gupta
Chairman & Managing Director

Place : Noida
Date : 25 July, 2023

POSSESSION NOTICE
 (for immovable property)

Whereas,
 The Authorized Officer of **INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 19.03.2019 calling upon the Borrowers **BOBBY SHARMA PROPRIETOR RING PATHAK COMPLEX, BOBBY SHARMA PROPRIETOR C.K. RESTAURANT, GANGA PRASAD SHARMA AND CHANDRA KANT SHARMA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.2,30,48,312/- (Rupees Two Crores Thirty Lakhs Forty Eight Thousand Three Hundred Twelve Only)** against Loan Account No. **C0010XXVI-2 (Earlier Loan Account No. HLLAAGR00354125 ICCL)** as on 18.03.2019 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice. Further the ICCL has assigned all its rights, title and interest of the above loan account in favor of **Indiabulls Asset Reconstruction Company Ltd. as Trustee of Indiabulls ARC-XXVI, Trust** by way of an Assignment Agreement dated 23.03.2022. Further the Indiabulls Asset Reconstruction Company Ltd. as Trustee of Indiabulls ARC-XXVI, Trust has assigned all its rights, title and interest of the above loan account in favor of **Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd. ("ACRE")** by way of an Assignment Agreement dated 29.06.2022 and Loan Account which has been renumbered as Loan Account No. **C0010XXVI-2** in books of ACRE.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 21.07.2023.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.** for an amount of **Rs.2,30,48,312/- (Rupees Two Crores Thirty Lakhs Forty Eight Thousand Three Hundred Twelve Only)** as on 18.03.2019 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY


THE PREMISES BEING COMMERCIAL PLOT NO.-4B/2 TOTAL AREA MEASURING 450 SQ. MTRS. (NORTH TO SOUTH 15 METER AND EAST TO WEST 30 METER) SITUATED IN SECTOR-4B, PANDIT DEENDAYAL UPADHYAY PURAM, SIKANDRA SCHEME, LOHAMANDI WARD, AGRA-282007, UTTAR PRADESH AND IS BOUNDED AS UNDER:

EAST :EXIT AND ROAD 9 METER WIDE
 WEST :EXIT AND ROAD 24 METER WIDE
 NORTH :COMMERCIAL PLOT NO.-03
 SOUTH :COMMERCIAL PLOT NO.-01

Sd/-
Authorized Officer

Date : 21.07.2023
Place : AGRA

Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd.
(102-TRUST)


BRIGADE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
 Corporate Identity Number (CIN): U70200KA2007PTC042824
 Regd. Office: 29th Floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus
 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru 560 055. Ph: +91-80-4137 9200
 Email: investors@brigadegroup.com Website: www.brigadecosmopolis.com

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(₹ in Lakhs)

Statement of financial results

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Corresponding	Previous year
		June 30, 2023	Quarter ended	ended
		[Unaudited]	[Unaudited]	[Audited]
			(refer note 4)	
1	Total Income from Operations	5,454	2,824	14,546
2	Net profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,626)	(2,897)	(10,425)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,626)	(2,897)	(10,425)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,144)	(2,042)	(7,997)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,144)	(2,042)	(7,997)
6	Paid-up equity share capital (Face value per share - ₹10)	3,827	3,827	3,827
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(15,380)	(11,774)	(14,234)
8	Securities Premium Account	-	-	-
9	Net worth	(11,553)	(7,947)	(10,407)
10	Paid-up debt capital / Outstanding debt	52,707	46,686	51,353
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	2,109	2,109	2,109
12	Debt Equity Ratio	(12.95)	(18.54)	(14.15)
13	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	a) Basic			
	Class A equity shares	-	-	-
	Class B equity shares	(2.94)	(5.25)	(20.53)
	Class C equity shares	(3.06)	(5.46)	(21.37)
	b) Diluted (refer Note 5 below)			
	Class A equity shares	-	-	-
	Class B equity shares	(2.94)	(5.25)	(20.53)
	Class C equity shares	(3.06)	(5.46)	(21.37)
14	Capital Redemption Reserve (CRR)	-	-	-
15	Debenture Redemption Reserve (DRR)	1,319	1,319	1,319
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0.44	0.05	0.13
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	0.55	0.07	0.19

Notes to the financial results for the quarter ended June 30, 2023

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the BSE Limited and on the Company's website www.brigadecosmopolis.com.
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website www.brigadecosmopolis.com.
- Brigade Properties Private Limited (the Company or "BPPL") had issued 490 A Series Unsecured Non-Convertible Debentures ("NCD") of Rs.10,00,000 each on March 20, 2015, which were listed on BSE Limited ("BSE") on March 30, 2015.
- The financial results of Brigade Properties Private Limited (the Company) for the quarter ended June 30, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 24, 2023. The financial results for the quarter ended June 30, 2022 were reviewed by S. R. Batliboi & Associates LLP, Chartered Accountants, the predecessor auditors who have expressed an unqualified conclusion.
- During the current quarter ended June 30, 2023, the Company has incurred losses. The Company is in the initial phase of its leasing operations and will be able to make profits once the units are sold or the available spaces are leased out and also avail unused bank borrowing limits and obtaining continuing financial support from its investors to continue to run its business operations. Based on the projected cashflows including the factors mentioned above the Company expects that the carrying value of its assets including investment property, inventories including Transfer of Development Rights ("TDR"), deferred tax assets and receivables as at the period end as fully recoverable.

Place: Bengaluru, India
Date: July 24, 2023

For and on behalf of the Board of Directors of
Brigade Properties Private Limited
 Director

रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

प्र. कां०: पणवड़गंज, नई दिल्ली-110055, www.ramgarhiabank.com

वित्तीय परिसंचितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत विक्रय सूचना

जबकि रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी ने यह इसमें निम्न विवरणित संचितियों का, वित्तीय परिसंचितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्ति के प्रयोगांतर्गत, अधिकांश कर लिया है।

जबकि यह इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता एवं गारंटर अपनी ओर से रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली को देय राशि का प्रतिभूतगन्तन करने में विफल रहे हैं। इसीलिये रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली ने वित्तीय परिसंचितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निन्ममावली 2002 के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न विवरणित संचितियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निन्ममावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जैसी हैं जहाँ हैं एवं जो हैं" तथा वहाँ जो कुछ है आधार" पर, सार्वजनिक नीलामी के अंतर्गत विक्रय करने का निर्णय लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	गारंटर का नाम	संपत्ति का विवरण	देय राशि	आरक्षित मूल्य
1.	मेसर्स चन्ना इंजीनियर्स, स्वामी : स्वर्णीय एच. सुखदेव सिंह	1) श्री अमरजीत कौर 2) श्री शिवान सरूप गुप्ता 3) सुभी स्वनीत कौर 4) सुभी अग्रूप कौर	निर्मित संपत्ति सं. डब्ल्यूजेड-393 के पश्चिमी भाग का मू. रल. भूमि क्षेत्र माप 60 वर्ग गज, कुल क्षेत्र माप 140 वर्ग गज (21 X 60) में से, खसरा नंबर 40/ 6 में से, ग्राम शाकरपुर के क्षेत्र, दिल्ली राज्य, अब भी नगर एक्सपेंडिंग के रूप में विहित कॉलोनो, शाकर बस्ती, अब दिल्ली-110 034 में स्थित तब ही सुखदेव सिंह पुत्र स्वर्णीय आल्पा सिंह के नाम पर दर्ज है। अधिग्रहण की तिथि : 14-03-2023	₹. 53.29 लाख +व्याज+विविध शुल्क	₹. 35.00 लाख

ई पूंछ ऑई

कि एतद्द्वारा यहाँ इसमें उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं तथा गारंटरो को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निन्ममावली 2002 के नियम 8 के अंतर्गत 30 दिवसीय सूचना दी जाती है कि यह इसमें उपर्युक्त वर्णित संचितियों का विक्रय, प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर जनता के बीच नीलामी द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने में तथा उपर्युक्त वर्णित संचितियों का क्रय करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति, निम्नो एवं सर्तों से समाविष्ट निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर पृथक रूप में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बैंक की वेबसाइट www.ramgarhiabank.com पर उपलब्ध है और इसे, नीलामी की तिथि से पूर्व बैंक के कार्यालयों पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे के मध्य, प्राधिकृत अधिकारी (श्री जसपाल सिंह, मोहनल नगर 0911260019) से भी प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत, जो उपरोक्त संपत्ति का क्रय करने में रुचि रखते हैं, वे नीलामी की तिथि से एक दिवस पूर्व बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने केवाईसी प्रत्येक के साथ उपरोक्त उल्लिखित आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत की धरोहर राशि के साथ विधिवत ढंग से भरे गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई व्याज नहीं लगेगा। यहां इसमें ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति परिसंचितियों के विवरण यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की संवैधान ज्ञानकारी के अनुसार वर्णित किये गये हैं तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में दृढ़ी या होनेवाली किसी भी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा मूलभूतक के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। प्राधिकृत अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे कोयी भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया को निरस्त /निलंबित /स्थगित कर सकते हैं।

एतद्द्वारा उधारकर्ताओं/गारंटरो/संबंधकर्ताओं को अधिसूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन व्याज और अन्य व्ययों के साथ ऊपर उल्लिखितानुसार राशि का भुगतान करें, ऐसा करने में विफल रहने पर संचितियों का विक्रय कर दिया जायेगा।

स्थान : नई दिल्ली, दिनांक : 26-07-2023

प्राधिकृत अधिकारी

अपोलो पाइपस लिमिटेड

CIN: L65999DL1985PLC022723

पंजी. कार्यालय : 37, इराणोविंद एक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

निगमित कार्यालय : प्लॉट नं. 10, ए-140, सेक्टर 136, नोएडा, उ.प्र. 201301

Email: compliance@apollopipes.com Website: www.apollopipes.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकीकृत वित्तीय परिणामों का सार

(आंकड़े क्र. लाख में अंकित मूल्य व ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्तमान तिमाही	समाप्त समाप्त तिमाही	समाप्त पूर्व वर्ष
		30.06.2023	30.06.2022	31.03.2023
		अनंकीकृत	अनंकीकृत	अनंकीकृत
1	प्रचालनों से कुल आय	26,033.33	21,889.19	91,452.34
2	ईबीआईडीटीए	2,734.50	2,085.31	6,999.44
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले, असामान्य और / या असाधारण मर्दा)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
4	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मर्दा के बाद)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
5	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मर्दा के बाद)	1,392.48	882.62	2,391.49
6	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए कुल लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	2,412.26	884.20	5,573.90
7	विश्विटी शेयर पुंजी	3,932.82	3,932.82	3,932.82
8	आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षण को छोड़कर) पूर्व वर्ष के को पूर्ण प्राप्ता रटोक एक्सचेंज में दर्शाए अनुसार	-	-	41,788.84
9	अर्जन प्रति शेयर (₹/10/-प्रत्येक का अंकित मूल्य, तिमाही आंकड़ों के लिए वाषिर्कीकृत नहीं)			
	शेषिक:	3.54	2.24	6.08
	डायल्टिड:	3.48	2.24	6.08

नोटस : (1) उक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायरे तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् <https://www.nseindia.com> और <https://www.bseindia.com> पर कंपनी की वेबसाइट www.apollopipes.com पर भी उपलब्ध है।

2. लेखा-नीतियों में परिवर्तन(ओं) के कारण शुद्ध लाभ / हानि, कुल समग्र आय या अन्य किसी संबंधित वित्तीय मद(ओं) पर प्रभाव अपोलो पाइपस लिमिटेड के लिए हस्ता./-समीर गुप्ता

स्थान : नोएडा दिनांक : 26 जुलाई, 2023 अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक

EXIT OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF BHAGYANAGAR PROPERTIES LIMITED FOR DELISTING OF EQUITY SHARES



Corporate Identification Number (CIN): L70102TG2006PLC050010
Registered Office: Sy.no.221 - 224 Part, Vattinjagupally, Rajendranagar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad-500 032, Telangana, Tel: +91 40 27845119, Fax: +91 40 27818868
Email: cs@surana.com / investorservices_bpl@surana.com
Website: www.bhagyanagarproperties.com

This advertisement dated July 25, 2023 ("Exit Offer Advertisement") is being issued by akasam consulting private limited ("Manager" or "Manager to the Offer") for and on behalf of Mr. Narendar Surana (Acquirer 1), Mr. Devendra Surana (Acquirer 2), Mr. Sunita Surana (Acquirer 3), Mrs. Namrata Surana (Acquirer 4), M/s. Surana Income Private Limited (Acquirer 5), M/s. Surana Telecom and Power Limited (Acquirer 6) and M/s. Bhagyanagar Securities Private Limited (Acquirer 7) (Acquirer 1, Acquirer 2, Acquirer 3, Acquirer 4, Acquirer 5, Acquirer 6 and Acquirer 7 are collectively referred to as "Acquirers") to the residual public shareholders of Bhagyanagar Properties Limited (the "Target Company" "BPL") pursuant to Regulation 27 (i) (a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("Delisting Regulations") in accordance with terms and conditions set out in the exit offer public announcement dated November 29, 2022 and the Exit Offer letter dated November 29, 2022 ("Exit Letter of Offer").

This Exit Offer Advertisement is in continuation of and should be read in conjunction with the Exit Offer PA and Exit Letter of Offer. Capitalized terms used in this Exit Offer Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed to it in the Exit Offer PA and Exit Letter of Offer.

1. DATE OF DELISTING

1.1 Pursuant to Notice No.20221128-10 dated November 28, 2022 from BSE Limited ("BSE Final Delisting Approval"), the trading of equity shares of the Target Company (Script Code: 540621) is discontinued with effect from December 12, 2022 (BSE Date of Delisting) and delisted from BSE records with effect from December 19, 2022.

Pursuant to Circular no. 1433/2022 dated November 28, 2022 from NSE Limited ("NSE Final Delisting Approval"), the trading of equity shares of the Target Company (Script Symbol BHAGYAPROP) is discontinued with effect from December 12, 2022 (NSE Date of Delisting) and delisted from NSE records with effect from December 19, 2022.

2. INVITATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS TO AVAL THE EXIT OFFER

2.1 A separate exit letter of offer along with exit application form ("Exit Letter of Offer") containing the terms and conditions for participation of the Residual Shareholders during the period of one year from the BSE and NSE Date of Delisting (December 19, 2022) to December 18, 2023 ("Exit Window") has been despatched by the Acquirers to the Residual Shareholders on December 01, 2022 whose names appear in the Register of Members of the Target Company as on November 25, 2022. The Residual Shareholders are requested to avail the exit offer by tendering their equity shares at Rs.42.25 per equity share ("Exit Price") during the Exit Window, by submitting the required documents to the Registrar to the Delisting Offer, as set out in the Exit Letter of Offer.

2.2 If the Residual Shareholders do not receive or misplace the Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the Exit Letter of Offer by writing to the Registrar to the Delisting Offer; KFin Technologies Limited clearly marking the envelope "Bhagyanagar Properties Limited - Exit Offer". The Residual Shareholder may also download the soft copy of the Exit Letter of Offer from the website of the Target Company; www.bhagyanagarproperties.com and from the website of the Manager to the Offer; www.akasamconsulting.com.

2.3 For the quarter ended June 30, 2023, follow-up communication to the Residual Shareholders has been sent on July 24, 2023 by email in terms of Regulation of 27(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations and the Manager to the Offer in coordination with the Acquirers, has filed a quarterly progress report with BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited (NSE) on July 25, 2023 in terms of Regulation 27(1)(c) of the SEBI Delisting Regulations.

3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS

Subject to the fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Exit Letter of Offer, the Acquirers shall make the payment on a monthly basis, within ten working days from the end of relevant calendar month in which the Exit Application Forms have been received by the Acquirers ("Monthly Payment Cycle"). Payment will be made to only those Residual Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions set out in the Exit Letter of Offer and receipt of equity shares in the special depository escrow account (as defined in the Exit Letter of Offer / receipt of physical share certificates along with duly filed in transfer deeds and Exit Application Forms) by the Registrar to the Delisting Offer. It should be noted that the Acquirers reserves the right to make the payment earlier. Settlement of payment has been completed successfully to all the shareholders who have validly tendered their equity shares during the previous quarter period from April 01, 2023 to June 30, 2023.

If any Residual Shareholders have any query with regard to the Exit Offer / or Exit Window, they should consult the Managers to the Offer or Registrars to the Offer as per the details given below. All other terms and conditions of the Delisting Offer as set forth in the Exit Offer Public Announcement and Exit Letter of Offer shall remain unchanged.

The Acquirers accept the full responsibility for the information contained in this Exit Offer Advertisement and confirms that such information is true, fair and adequate in all material aspects. The details of the Manager to the Offer and Registrar to the Offer are as under:


MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
akasam transcending horizons akasam consulting private limited "akasam" 10-1-17/1/11, level 3&4, Masab Tank, Hyderabad-500004. Phone.No.:+91-40-6644 4999/55 Fax.No.:+91-40-2333 5511 Email: info@akasamconsulting.com mpanid@akasamconsulting.com Website: www.akasamconsulting.com , Contact Person: Mr. P.Naidu, General Manager (Mobile: 9949695940) SEBI Registration. No.: INM000011658 CIN:U74140TG2000PTC035024	KFINTECH KFin Technologies Limited CIN:U72400TG2017PLC117649 Selenium Building, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-032, Telangana.Tel.No.:+91 040-67162222 Toll free No:1-800-3454-001 Fax: 040-23001153 Email: bpl.delistingoffer@kfinitech.com Website: www.kfinitech.com Investor grievance e-mail: bpl.delistingoffer@kfinitech.com einward.ris@kfinitech.com Contact Person: Murali Krishna M, SEBI Registration No.: INR000000221

For and on behalf of the Acquirers

Date : July 25, 2023
Place : Secunderabad
Sd/- Narendar Surana Sd/- Devendra Surana

इंडोस्टार होम फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय : यूएन नंबर 3०5, तीसरी मंजिल, विंग 2/ई, कॉम्पलेट एच्यू, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 4००093



वित्तीय परिसंचितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2००2 की धारा 1३(2) के तहत सूचना

मैं, इंडोस्टार होम फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड ("आइएचएफपीएल") का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) को निम्नलिखित सूचना देता हूँ, जो जानबूझकर अपनी कानूनी और संचितत्वक दायता (ओं) का निर्वहन करने में विफल रहे हैं यानी ऋण राशि के पुनर्मुलतन में चूक गए हैं अर्थात् मूलधन के साथ-साथ उन्हें इंडोस्टार होम फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड से दिए गए होम लोन के तहत अर्जित व्याज और अन्य प्रभारों और उसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के लागू विनियमों के अनुसार आइएचएफपीएल के बही-खातों में उक्त ऋण गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गए हैं। तदनुसार, उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2००2 की धारा 1३(2) और उसके नियमों (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत भारतीय डाक के माध्यम से उनके अंतिम ज्ञात पता पर मांग सूचना जारी की गई थी और सरफेसी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार बाहरी द्वारा / उसके अन्य विशिष्ट भाग पर भी विपकाए गए थे इस प्रकार, उक्त उधारकर्ताओं को इस मांग सूचना के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है /नोटिस दिया जाता है कि वे आइएचएफपीएल के पक्ष में उनके द्वारा बनाई गई प्रतिभूतियों के खिलाफ आइएचएफपीएल से प्राप्त होम लोन सुविधाओं के तहत अपनी पूरी कायदा राशि का भुगतान करें, जिसका व्यौरा यहां विनिश्चित किया गया है।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता (ओं) का विवरण	संपत्ति विवरण	मांग सूचना विवरण
LNGHA0HL-11210019993	उधारकर्ता: रिकु कुमार सब-उधारकर्ता:- वीरवति	संपत्ति धारक:- संपत्ति धारक प्लॉट सं. 15बी, खसरा सं. 1043, मापक 46. 45 वर्ग मीटर या 50 वर्ग गज, स्थित ग्राम छपरौला प्रोत विहार कोलोनो, परगना और तहसील दादरी, जिला नातमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का संपूर्ण व स्वामीय भाग। सीमांकन : पूर्व : 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : प्लॉट सं. 15ए, दक्षिण : अर्जुन सिंह का प्लॉट सं. 16	₹ 7, ३3, ३21 /- (रुपये सात लाख तैंतीस हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) दिनांक : 14.07.2023

यह प्रतिस्थापित सेवा / मांग सूचना का प्रकाशन सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। उपर्युक्त उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस मांग सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर व्याज और अन्य प्रभारों के साथ ऊपर उल्लेखित सभी राशियों का भुगतान करें, जिसमें विफल रहने पर (ऋण समझौते की सर्तों के तहत आइएचएफपीएल को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों और उपायों के लिए पूर्णतः के बिना) और ऊपर निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंचितियों / बंधक संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए आगे के कदमों सहित लागू कानूनों के तहत और बनाया ऋण राशि को परसूची के लिए इतनी ब्राद की बिक्री/नीलामी, सरफेसी अधिनियम की धारा 1३(4) के प्रावधानों के तहत शुरू की जाएगी। उपर्युक्त पक्षों और / या उक्तगी और से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को यह भी सलाह दी जाती है कि वे पहले अन्य प्रभार के आधार पर आइएचएफपीएल के पक्ष में निस्वी रखी गई उपर्युक्त सुरक्षित संपत्तियों में किसी भी प्रकार से किसी भी तृतीय-पक्ष अधिकार या हित की बिक्री, हस्तांतरण, निपटान, अलगाव, दायित्व और / या सूचना न करें।

प्रत्याभूत परिसंचितियों का खंडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 1३ की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

"कोई भी व्यक्ति जो सरफेसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और / या दंड सहित सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : -गौमन बुद्ध नगर दिनांक : 26.07.2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति इंडोस्टार होम फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड

एल&टी फाइनंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, पीएस टुनक रोड फॉक प्लॉट नं. 52, ब्लॉक डीएन, सेक्टर 11, सॉफ्ट टेक सिटी कोलकाता 700 091, जिला 24-परगना नोई।
CIN No.: U65910WB1993FCO60810
शाखा कार्यालय: नोएडा

मांग सूचना


सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स एंड एफोर्सिंटेड ऑफ सिक्वोरिटी इंस्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत (आगे से कानून कहा गया है)

हमने आप सभी (कर्जदारों, सहकर्जदारों और गारंटरो) को रजिस्टर्ड डाक एनॉलितेज ड्यू के माध्यम से मांग सूचना जारी की है, क्योंकि आपने बनाया राशियों का भुगतान नहीं किया है, और इस बनाया राशि को चुकता करने में विफल रहे हैं और इसे नजरअंदाज किया है। परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आस्तित्वनिर्देशों के अनुसार बुक ऑफ अकाउंट में लोन अकाउंट को लोन-परफोमिंग अकेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह सूचना अधिष्ठित के रूप में आपके हाथों में प्रेषित है और इसीलिए अब हम यह सूचना और इस पर कानून की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर रहे हैं और एतद्द्वारा एल&टी फायनान्शियल सर्विसेस (पहले जो एल&टी हाउसिंग फायनान्स के रूप में जाना थी, का 12 अप्रैल 2021 से प्रभाव तौर पर एल&टी फायनान्स लिमिटेड ("एलटीएफ") के साथ विलय हो चुका है) मांग सूचना के दिनांक के मूलतः तब भावी व्याज और अन्य प्रभारों के साथ इस कानून के दिनांक से 60 दिनों के अंदर नीचे संक्षेप सूचना में वर्णित राशि अदा करने के लिए आवाहन करते हैं। यदि आप इस सूचना के अनुसार अपनी देयताओं को पूरा नहीं करते हैं तो हम कानून की धारा 13(4) था धारा 14 के तहत दिए गए सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विवश होंगे। "यह कानून और/या समय समय पर लागू कानून के अनुसार हमें उपलब्ध किन्हीं भी अधिकारों के पूरूर्वह के बिना होगा।

ऋण खाता संख्या	कर्जदारों और सहकर्जदारों का नाम	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक / बकायाराशि		अचल संपत्ति (मॉर्गेज्ड) का वर्णन
		एनपीए दिनांक	बकाया राशि (₹) यथा	
DELHL17000898 DELHL17001072	1. मुहम्मद इज़हार गौरी 2. निखत परनिम 3. अन्वयाज शिप्टिबल (मालिक मुहम्मद इज़हार गौरी के माध्यम से)	मांग सूचना दिनांक: 08/07/2023 एनपीए दिनांक: 04/06/2023	₹. 25,02,619.24 (पचास लाख बी हजार छह सौ उन्नीस बीस बीस रुपये मात्र) दिनांक 05-07-2023 तक	स्वी-1 इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक मूखंड: प्लुनोट नं. R018COURTYD2411/फ्लैट नं. 2411 शेकरफ 1005 फुट (कर्पेट/बिंदू अथ शेकरफ) टॉवर ब्लॉक C51 में/केओ विलेज-1 नामक प्रोजेक्ट में, 24वीं मंजिल पर, प्लॉट नं. 08 में स्थित, सेक्टर -1, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201303

दिनांक: 26.06.2023
स्थान: नोएडाकुले/-
प्राधिकृत अधिकारी

एल&टी फाइनंस लिमिटेड के लिए



बुद्ध भक्ति केन्द्र : एक्सिस बैंक लिमिटेड, गौतमबुद्ध, एनसी-1, तृतीय तल, एलएनईडी, उत्तरवली, उत्तर प्रदेश, नोएडा। मुंबई कार्यालय: एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनसी-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन सिटीएन, नोएडा (एन०-2०1३०1)। **कार्पेट कार्यालय :** एक्सिस टावर, ब्लॉक-बी, बामे ड्राइंग मिल कम्पाउंड, माथुरा नुकर मार्ग, वली, मुंबई-400 25 **परीक्षक कार्यालय :** सिविल, एलए तल, समवेयर नॉक्स के सामने, लो गार्डन, एलसीडी, अमदाबाद-380006

एलएसीटी एक्ट 2002 के तहत सूचना

जबकि अयोध्यावासी ने, एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निन्ममावली 2002 के नियम 9 के साथ एतद्द्वारा धारा 1३(2) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचना जारी की थी, जिन्होंने उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर सम्पत्ति का कब्जा उक्त निन्ममावली के नियम 8 के साथ एतद्द्वारा कर्जदार उक्त सूचना के अंतरिक रूप में अस्वीकार रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अयोध्यावासी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त निन्ममावली के नियम 8 के साथ एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निन्ममावलि तिथियों को ले लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना किता जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संशयदाहर नहीं करे तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संशयदाहर एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभारित होना। कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना किता जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संशयदाहर नहीं करे तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संशयदाहर एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभारित होना।

साह-कर्जदार का नाम और गारंटर का नाम /पता : 1. श्रीमती निशु कुमार पत्नी श्री राकेश कुमार निवासी मु-27/5, प्रथम तल, डीएलएफ फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, अना पता - श्रीमती निशु कुमार (स्वामिनी) मेसर्स इवामिनि असेट्स, 39, द्वितीय तल, सेक्टर-मन्द, शाहपुर हाउस, नई दिल्ली-110016 अना पता - श्रीमती निशु कुमार पत्नी श्री राकेश कुमार फ्लैट नंबर एच-101, प्रथम तल, महिमा फ्लैट्स, उत्तरांचल, जयपुर-राजस्थान-302004, 2. श्री हर्षन साह पुत्र श्री राकेश कुमार निवासी मु-27/5, प्रथम तल, डीएलएफ फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

सम्पत्ति का वर्णन : आवासीय फ्लैट नंबर एच-101, प्रथम तल, टावर -एच, स्थित महिमा फ्लैट्स फोरम आवासीय आवासीय, ग्राम मन्दाव, तहसील सांभार, जयपुर, निर्मित अप्रैल 1154 वर्ग फीट, प्लॉटिन नंबर पीएच-101 तथा फ्लैट को जाने वाले कॉमन पैरिज तथा लिफ्ट सहित। जो हाइडल डीड के अनुसार परिव्यव है।

मांग सूचना की तिथि :	कब्जा की तिथि :	बकाया राशि :
23-फरवरी-2023	21-जुलाई-2023	₹. 26,63,804 /- (रुपय दस लाख तिरसह हजार आठ सौ चार मात्र)

उपरि-वर्णित कर्जदार(री)/साह-कर्जदार(री)/गारंटरो(री)/बकवता(ओं) को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त बकाया राशि

ASIAN PAINTS LIMITED				
Registered Office: 6A, Shantinagar, Santacruz (East), Mumbai - 400 055 Tel. No.: (022) 6218 1000 Fax No.: (022) 6218 1111 Website: www.asianpaints.com Email: investor.relations@asianpaints.com CIN: L24220MH1945PLC004588				
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 TH JUNE, 2023				
Sr. No.	Particulars	STANDALONE (₹ in Crores)		
		Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2023 Audited*	30.06.2022 Audited*	31.03.2023 Audited*
1	Total Income from Operations	8,113.96	7,586.23	30,078.40
2	Net Profit for the period (before Exceptional items)	2,018.15	1,372.41	5,489.60
3	Net Profit for the period before tax	2,018.15	1,372.41	5,489.60
4	Net Profit for the period after tax	1,508.37	1,017.28	4,100.18
5	Total Comprehensive Income for the period	1,547.53	1,002.16	4,167.53
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹1 per share)	95.92	95.92	95.92
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date			15,489.64
8	Earnings Per Share (of ₹1/- each)			
	Basic (in ₹) (*not annualised)	15.73*	10.61*	42.76
	Diluted (in ₹) (*not annualised)	15.73*	10.61*	42.76

CONSOLIDATED (₹ in Crores)				
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2023 Unaudited*	30.06.2022 Unaudited*	31.03.2023 Audited*
		1	Total Income from Operations	9,182.31
2	Net Profit for the period (before Exceptional items) [^]	2,104.96	1,430.83	5,737.70
3	Net Profit for the period before tax [^]	2,104.96	1,406.62	5,688.83
4	Net Profit for the period after tax	1,574.84	1,036.03	4,195.33
5	Total Comprehensive Income for the period	1,635.41	982.49	4,208.37
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹1 per share)	95.92	95.92	95.92
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as at Balance Sheet date			15,896.31
8	Earnings Per Share (of ₹1/- each)			
	Basic (in ₹) (*not annualised)	16.17*	10.60*	42.83
	Diluted (in ₹) (*not annualised)	16.17*	10.60*	42.82

Refer note 2
^ Includes share of profit in associates.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 25th July, 2023. The full format of the Statement of Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (<https://www.asianpaints.com/more/investors/investors-landing-page.html?q=financial-results>) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).
- The Standalone and Consolidated Financial Results, for the quarter ended 30th June, 2023 and 30th June, 2022 have been audited and subjected to limited review respectively, by the auditors. The auditors have expressed an unmodified opinion on the audit and limited review. The Standalone and Consolidated Financial Results, for the year ended 31st March, 2023 have been audited by the auditors. The auditors have expressed an unmodified opinion on the audited financial results.


FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
AMIT SYNGLE
MANAGING DIRECTOR & CEO
DIN: 07232566

Place : Mumbai
Date : 25th July, 2023

Apollo Pipes Limited

CIN: L65999DL1985PLC022723
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092
Corp. Office: Plot No. A-140, Sector 136, Noida, U.P. - 201301
Email: compliance@apollopipes.com, Website: www.apollopipes.com



APL APOLLO
PIPING SYSTEMS
Made for life

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(Figure ₹ in Lakhs except face value and EPS)


S. No.	Particulars	Current Quarter ended 30.06.2023	Corresponding Quarter ended 30.06.2022	Previous Year ended 31.03.2023
		Un-audited	Audited	Audited
		1	Total Income from Operations	26,033.33
2	EBIDTA	2,734.50	2,085.31	6,999.44
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,392.48	882.62	2,391.49
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,412.26	884.20	5,573.90
7	Equity Share Capital	3,932.82	3,932.82	3,932.82
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	41,788.84
9	Earning Per Share (face value of Rs. 10/- each, not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	3.54	2.24	6.08
	Diluted:	3.48	2.24	6.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com> and on the Company's website www.apollopipes.com.
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

Place: Noida
Date: 25 July, 2023

For Apollo Pipes Limited Sd/-
Sameer Gupta
Chairman & Managing Director



CPVC | uPVC | AGRI | SWR | PPR-C | ADHESIVES | BATH FITTINGS | WATER TANKS

APOLLO PIPES LIMITED
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

TOLL FREE NO. 1800-121-3737
website@apollopipes.com | www.apollopipes.com

INDO-JAPANESE PARTNERSHIP

CONSUMER CONNECT INITIATIVE

INDIA-JAPAN SCRIPT AN EXPANDING PARTNERSHIP FOR A SHARED FUTURE

Etgreycell@timesgroup.com

Technology is redefining the Indo-Japanese partnership. The two nations are looking to tap into the opportunities presented by Japanese startups as well as large corporations, which are looking for technology and services partnerships to present their solutions to the world.

During his visit to India, the Economy, Trade and Industry Minister Yasutoshi Nishimura emphasised the key pillars that are driving the rapidly expanding business relationship between the two countries. With innovation and partnership, he stressed on how the two countries could exploit the opportunities for growth for trade between them and for making an impact around global markets.

While companies from the two countries are expanding their business cooperation, the two are working on a three-pronged strategy for expanding their business relationship.



Creation of future industries: India and Japan have identified cutting edge areas like digital services, clean energy, healthcare, mobility and electric vehicles and aerospace as areas of cooperation. Japan has also stressed on the collaboration between the startups of the two countries.

"Together we will open up the future of the world. I would like to realise such Japan-India cooperation. Specially in the field of semiconductors, today we are taking the first steps towards cooperation with India," Nishimura said, outlining his vision for the shared future.

During the visit, Minister Nishimura and Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw signed a memorandum of cooperation for semiconductor design, manufacturing, equipment research, talent development, and bringing resilience to the semiconductor supply chain, to enhance bilateral cooperation in this sector. That had set the ball rolling for companies to ideate on finding the business opportunities in semiconductors and relevant fields.

Expanding scale of conventional industries: Steel, textiles, SMEs and other sectors could be potential areas for collaboration. As steel industry needs to decarbonise, Japan and India could work together to chart a new course for India's expanding steel manufacturing sector. Japan is already working to improve the competitiveness of

India MSME sector.

Entering new markets: Several Japanese companies are making India their manufacturing base for exports, which contributes to India's 'Make for World' initiative. With enhanced cooperation between the two, Japanese technology edge can combine with Indian companies to open new markets. Financial support for export to third countries by Japanese companies from India is already being discussed. The partnership could open new markets like Africa.

OPPORTUNITIES UNLIMITED

While both nations are looking to expand their collaboration in these areas, nearly 1400 Japanese companies that operate in India can look to ride this opportunity in partnership with India. Last year Suzuki achieved its all-

time high exports to Latin America and Africa. Daikin has announced plans to export air conditioners manufactured in India to 100 countries. Kubota is looking to expand to African markets as part of the India-Japan alliance.

Indo-Japan Digital Partnership aims to promote projects for digital transformation, which only widens the scope for partnership.

India energy ambition has been taking a radically different shape as it puts into place a strategy for becoming energy independent by 2047 and achieving net zero carbon emission by 2070. Increasing renewable usage is central to the planned energy transition. Green Hydrogen (GH) holds the promise as one of the alternatives to enable this transition.

In March 2022, the two countries announced the Clean Energy Partnership with the

commitment to enhance energy cooperation between the two countries. With the two governments laying the ground for expanding the cooperation, the list of emerging sectors for expanding the business relationship is long – hydrogen and ammonia, biofuel, CCUS, sustainable transport and electrical vehicle and battery, energy efficient buildings, and more.

At the Indo-Japan Deeptech Innovation and Clean Energy Seminar last week, a number of startups from Japan also joined in, detailing their business. These startups companies are working in various technological fields such as healthcare, AI, agritech, energy and mobility, and drones.

- JAPANESE STARTUPS**
- ACSL
 - ArchiTek
 - alDrive
 - AWL
 - EF Polymer
 - Fast Doctor
 - Gojo & Company
 - Imbidesleyou
 - Instalimb
 - Power-X
 - Sagri
 - Sky Drive
 - Stroly
 - TeaRoom
 - Terra Motors



In order for Japan to continue to be a good partner for transforming India, I feel that the Japan-India industrial cooperation must boldly evolve to a new level in terms of both quantity and quality.

What I think needs to be recreated is the deep connection between medium and small enterprises in Japan and India. That still needs more work and the question in my mind, as India tries to engage with supply chains, is – does this or this does not need some kind of regional economic architecture.

Apollo Pipes Limited

CIN: L65999DL1985PLC022723

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi - 110092

Corp. Office: Plot No. A-140, Sector 136, Noida, U.P. - 201301

Email: compliance@apollopipes.com, Website: www.apollopipes.com



Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(Figure ₹ in Lakhs except face value and EPS)

S. No.	Particulars	Current Quarter ended 30.06.2023	Corresponding Quarter ended 30.06.2022	
		Un-audited	Un-audited	Audited
1	Total Income from Operations	26,033.33	21,889.19	91,452.34
2	EBIDTA	2,734.50	2,085.31	6,999.44
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,917.40	1,229.69	3,273.74
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,392.48	882.62	2,391.49
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,412.26	884.20	5,573.90
7	Equity Share Capital	3,932.82	3,932.82	3,932.82
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	41,788.84
9	Earning Per Share (face value of Rs. 10/- each, not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	3.54	2.24	6.08
	Diluted:	3.48	2.24	6.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com> and on the Company's website www.apollopipes.com.
- The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

Place: Noida

Date: 25 July, 2023



For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Sameer Gupta
Chairman & Managing Director

CPVC | uPVC | AGRI | SWR | PPR-C | ADHESIVES | BATH FITTINGS | WATER TANKS

APOLLO PIPES LIMITED
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

TOLL FREE NO. 1800-121-3737
we care@apollopipes.com | www.apollopipes.com

Health Ways

DAIRY

प्राकृतिक ताजगी की होम डिलीवरी

रुकेन करे

FOR HOME DELIVERY IN YOUR AREA DOWNLOAD APP

- Unique procurement System
- 55,000 Dairy Farmers
- Experienced Team
- Around 2500 Village Level Centres
- Quality Product
- Trust of our consumers

FOR TRADE INQUIRY: **9999312454**

www.healthwaysdairy.com

MARUTI SUZUKI ARENA

ऑफर्स जो बनाएंगे आपके मॉनसून सीज़न को यादगार.

मारुति सुजुकी एरीना कार को घर लाएं और आकर्षक ऑफर्स का आनंद उठाएं.

महा बचत

SWIFT ₹55 000*

WAGONR ₹55 000*

SWIFT WAGONR

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership | For bulk orders, mail at: nikhil.kumar3@maruti.co.in (NCR); abhinav.verma2@maruti.co.in (Delhi)

MARUTI SUZUKI AUTHORISED DEALERS: NORTH DELHI: SAYA, (AZADPUR) PH: 999369725. DD MOTORS, (NARELA) PH: 9999003888. T.R. SAWHNEY, (PITAMPURA) PH: 9582726509. D.D. MOTORS, (PEERAGARH) PH: 9999003888. T.R. SAWHNEY, (BADLI) PH: 9999324333. RANA MOTORS, (PRAHSANT VIHAR) PH: 971150777. D.D. MOTORS, (WAZIRPUR) PH: 9999003888. SHREYASH, (PITAMPURA) PH: 7838550885. RANA MOTORS, (GT KARNAL ROAD) PH: 9873477733. SHREYASH, (GT KARNAL ROAD) PH: 7838550885. FAIRDEAL WHEELS, (BUDD VIHAR) PH: 848296615. WEST DELHI: MAGIC AUTO, (SEC-20, DWARKA) PH: 992926814. T.R. SAWHNEY, (RAJOURI GARDEN) PH: 987181333. COMPETENT, (NAJAFGARH) PH: 982797763. MAGIC AUTO, (DWARKA SEC-19) PH: 992926814. AAA VEHICLELEAS, (MUNDA) PH: 965045555. COMPETENT, (DWARKA) PH: 982797879. MAGIC AUTO, (PALAM DABRI ROAD) PH: 8929400501. COMPETENT, (SHIVAJI MARG) PH: 9811477799. RANA MOTORS, (JANAKPUR) PH: 9999577776. D.D. MOTORS, (MAYAPUR) PH: 9999003888. JAGMOHAN AUTOMOTIVES, (NARAINA) PH: 9254028648. VIPUL MOTORS, (PACHHIM VIHAR) PH: 9133090331. EAST DELHI: FAIRDEAL WHEELS, (BHAJANPURA) PH: 7290290293. FAIR DEAL WHEELS, (SHAHNADRA) PH: 6449296615. COMPETENT, (GAZIPUR) PH: 9377029797. BAGGA LINK, (PATPARGANJ) PH: 9818199370. T.R. SAWHNEY, (DOKULPUR) PH: 999929150. MAGIC AUTO, (PREET VIHAR) PH: 8929400502. SOUTH DELHI: ROHAN, (MATHURA ROAD) PH: 9560036262. T.R. SAWHNEY, (NEHRU PLACE) PH: 9999563333. COMPETENT, (LAJPAT NAGAR) PH: 9582797810. AAA VEHICLELEAS, (MALVIYA NAGAR) PH: 9971500011. PREM MOTORS, (MAHAPALPUR) PH: 8745887458. D.D. MOTORS, (OKHLA PH-1) PH: 9999003888. BAGGA LINK, (KOTLA) PH: 8826892666. RANA MOTORS, (SAFDARJUNG) PH: 26712222. CENTRAL DELHI: MAGIC AUTO, (KAROL BAGH) PH: 8929268145. COMPETENT, (C.P) PH: 9582797749. T.R. SAWHNEY, (DARVAGANJ) PH: 9999299157.

BULANDSHAHAR: SK UNIVERSE Automobile, (SIKANDRABAD) PH: 9520870938. SK UNIVERSE Automobile, (SIYANA) PH: 9520870939. NOIDA: VIPUL, (SEC-63) PH: 9899095972. FAIRDEAL PREMIUM WHEELS, (SEC-10) PH: 9999700944. ROHAN, (SEC-11) PH: 9873501288. VIPUL, (SEC-18) PH: 9800091555. GREATER NOIDA: ROHAN, (UDYOG VIHAR) PH: 9811800980. VIPUL MOTORS, (GAUR CITY) PH: 9818392491. GURGAON: COMPETENT, (SEC-12) PH: 9382797711. PREM MOTORS, (32ND MILESTONE) PH: 8750487504. ROHAN, (SEC-54) PH: 4045400. PREM MOTORS, (LMO SIKANDRABAD) PH: 8750987509. VIPUL, (UDYOG VIHAR) PH: 4385701. PASCO, (SEC-18) PH: 4012000. COMPETENT, (SUBHASH CHOWK) PH: 9582797739. RANA MOTORS, (SCO PLOT NO-322 SEC-29) PH: 4260100. PASCO, (SILVERTON SEC-50) PH: 783500300. FARIDABAD: VIPUL, (MATHURA ROAD) PH: 999994707. TCS AUTOWORLD, (NEELAM CHOWK) PH: 0129-4525252. AUTO NATION, (MATHURA ROAD) PH: 9899596002. VIPUL, (BALLABGARH) PH: 0129-4208400. ROHAN, (PALWA) PH: 8930202062. FAIRDEAL PREMIUM WHEELS, (PIYALI CHOWK) PH: 9582101735. MANESAR: PLATINUM MOTOCORP, (MIT CHOWK) PH: 995345317. PLATINUM MOTOCORP, (FARRUKH NAGAR) PH: 9205192634. PLATINUM MOTOCORP, (PATAUDI) PH: 995345311. PLATINUM MOTOCORP, (NARNAUL) PH: 9053388437. PLATINUM MOTOCORP, (BILASPUR) PH: 995345313. PLATINUM MOTOCORP, (MAHENDERGARH) PH: 9053098402. BHARUABAG, ROHAN, (MUKUND NAGAR) PH: 9650100045. MOTORCRAFT, (SAHIBABAD) PH: 965072222. T.R. SAWHNEY, (MOHAN NAGAR) PH: 9582926544. SWI AUTOMOBILES, (AMBEDKAR ROAD) PH: 9811001626. GLOBUS AUTO, (KAVI NAGAR) PH: 8929422701. REGENT AUTO, (MEERUT ROAD) PH: 7065191234. ROHAN, (HAPUR) PH: 0122-2313204. MOTORCRAFT, (MODI NAGAR) PH: 8057692222. MOTORCRAFT, (BHOJPUR) PH: 9319583222. SOHNA: PASCO, (ALIPUR) PH: 8683009756. PASCO, (TAURSI) PH: 8683009729. PASCO, (PUNHANA) PH: 8683009729. PASCO, (NUH) PH: 8683009770. REWARI: AUTO VIBES, (KOSLI) PH: 01259-275300. AUTO VIBES, (BAWAL) PH: 7082100280. AUTO VIBES, PH: 7082010000. AUTO VIBES, (DHARUHERA) PH: 7082100481. AUTO VIBES, (KUND) PH: 7082100244. AUTO VIBES, (DAHINA) PH: 7082100107.

*Applicable Terms and conditions available at Maruti Suzuki Arena authorized dealer. Maruti Suzuki reserves the right to withdraw offers at any point in time without any advance notice. All offers are applicable till 31st July 2023 or till stocks last. Offers applicable on selected models and selected cities. Car models and accessories shown may vary from the actual product. Images used are for illustration purpose only. Offers shown above include Consumer Offer and Exchange Bonus. Prices mentioned are tentative and might vary basis applicable offers and registration cost. All loans and schemes are at the sole discretion of the Finance Partner.